

CLASS : 10th (Secondary)

Code No. 133

Series : Sec.-April/2021

Roll No.

**APPAREL FASHION DESIGN**

(Academic)

[ हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम ]

[ Hindi and English Medium ]

(Only for Fresh/School Candidates)

समय : 2½ घण्टे ]

[ पूर्णांक : 60

Time allowed : 2½ hours ]

[ Maximum Marks : 60

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 8 तथा प्रश्न 28 हैं।

*Please make sure that the printed pages in this question paper are 8 in number and it contains 28 questions.*

- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिये गये कोड नम्बर को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख्य-पृष्ठ पर लिखें।

*The Code No. on the right side of the question paper should be written by the candidate on the front page of the answer-book.*

- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।

*Before beginning to answer a question, its Serial Number must be written.*

- उत्तर-पुस्तिका के बीच में खाली पन्ना/ पन्ने न छोड़ें।

*Don't leave blank page/pages in your answer-book.*

- उत्तर-पुस्तिका के अतिरिक्त कोई अन्य शीट नहीं मिलेगी। अतः आवश्यकतानुसार ही लिखें और लिखा उत्तर न काटें।

*Except answer-book, no extra sheet will be given. Write to the point and do not strike the written answer.*

- परीक्षार्थी अपना रोल नं० प्रश्न-पत्र पर अवश्य लिखें।

*Candidates must write their Roll Number on the question paper.*

- कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पत्र पूर्ण व सही है, परीक्षा के उपरान्त इस सम्बन्ध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

*Before answering the question, ensure that you have been supplied the correct and complete question paper, **no claim in this regard, will be entertained after examination.***

**नोट :** (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

**All questions are compulsory.**

(ii) प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गये हैं।

*Marks are indicated against each question.*

(iii) प्रश्नों के उत्तर उनके अंकानुसार दीजिए।

*Answer the questions according to their marks.*

**नोट :** निम्नलिखित प्रश्नों के लिए **सही** विकल्प का चयन करें :

Choose the **correct** alternative of the following questions :

1. फ्रेंच सिलाई ..... कपड़ों के लिए अच्छी होती है।

1

(A) भारी

(B) हल्के

(C) मध्यम

(D) इनमें से कोई भी नहीं

French seams are better for ..... weight fabrics.

- (A) Heavier (B) Lighter  
(C) Medium (D) None of these

2. .... चीजों का प्रयोग परिधान को बंद करने के लिए किया जाता है। 1

- (A) टेप (B) पैच  
(C) शीशें (D) उपरोक्त सभी

..... are the things used to close garments.

- (A) Fasteners (B) Patches  
(C) Mirrors (D) All of the above

3. .... Practices पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सहायक होती है। 1

- (A) जैविक खेती (B) कीड़ा रचना  
(C) बारिश के पानी का संग्रहण (D) उपरोक्त सभी

..... practices are being used to help in preservation of the environment.

- (A) Organic farming (B) Vermi composting  
(C) Rainwater harvesting (D) All of the above

4. संचार का अर्थ है :

1

(A) साझा करना

(B) प्राप्त करना

(C) Feedback देना

(D) उपरोक्त सभी

Communication means :

(A) to share

(B) to receive

(C) to feedback

(D) all of the above

**नोट :** निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर **एक शब्द** अथवा **एक वाक्य/रिक्त स्थानों की पूर्ति** करके दीजिए।

Answer the following questions in **one word** or **one sentence/***Fill in the blanks.*

5. .... टाँका किनारों को सुरक्षित और प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है।

1

..... stitch will secure the edges & prevent fraying.

6. सिलाई का प्रयोग ..... के अनुसार होना चाहिए।

1

Seams should be used according to .....

7. वेल्क्रो टेप का अविष्कार ..... के बाद हुआ।

1

Velcro tepes was invented only after .....

8. MTL का पूरा रूप ..... है।

1

Full from of MTL is .....

9. .... टेप सबसे पहले यूरोप में शुरू हुई। 1  
 ..... was the earliest fastening to be introduced in Europe.

10. ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत बताए। 1  
 Write the source of energy which is renewable.

**नोट :** निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **2-3** पंक्तियों में दीजिए।

Answer the following questions in **2-3** lines each.

11. सीवन परिष्करण तकनीकों के बारे में बताएँ। 2  
 Mention the seam finishing techniques.

12. पाइपिंग से आप क्या समझते हैं ? 2  
 What do you understand by Piping ?

13. रोल कॉलर और शाल कालर में अन्तर बताएँ। 2  
 What is the difference between Roll collar & Shawl collar ?

14. फ्रेंच कफ और राउंड कफ से आप क्या समझते हैं ? 2  
 What do you understand by French cuft & Round cuft ?

15. आप लड़कियों और लड़कों के परिधान में बटन कहाँ लगायेंगे ? 2

How will you do the placement of buttons for girl's & boy's clothes ?

16. ब्रॉच के बारे में आप क्या जानते हैं ? 2

What do you know about Broaches ?

17. परिधान की गुणवत्ता से क्या अभिप्राय है ? 2

What is quality of a garment refers to ?

18. परिधान निरीक्षण का प्रवाह चार्ट लिखें। 2

Write the flow chart of garments inspection.

19. आप Job card का सृजक कैसे करेंगे ? 2

How will you create a job card ?

20. कार्य पैकेज को कॉन्फिगरिंग करने का क्या उद्देश्य है ? 2

What is the purpose of configuring work packages ?

**नोट :** निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **4-5** पंक्तियों में दीजिए।

Answer the following questions in **4-5** lines each.

**21.** परिधान में सीवन के क्या प्रयोग हैं ? 3

What are the uses of seams in garments ?

**22.** टेप (Fasteness) सिलते समय आप किन-किन बातों का ध्यान रखेंगे ? 3

What points will you keep in mind while sewing fasteners ?

**23.** परिधान निरीक्षण के चरण बताएँ। 3

Write the steps in garments inspection.

**24.** अगर सिलाई मशीन भारी चल रही हो तो आप क्या करेंगे ? 3

What will you do if machine is running hard ?

**25.** सिलाई में प्रयोग होने वाले धागों की गिनती के क्या लाभ हैं ? 3

Write the advantages of number of threads used for sewing.

**26.** Feedback का महत्त्व बताएँ। 3

Write the importance of feed back.

**नोट :** निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **5-7** पंक्तियों में दीजिए।

Answer the following questions in **5-7** lines each.

**27.** मानक गुणवत्ता स्तर बताएँ।

6

Write standard quality levels.

**28.** तनाव को संचालित करने के साधारण तरीके बताएँ।

6

Write simple stress management techniques.

**अथवा**

**OR**

कम्प्यूटर की कार्यात्मक कुंजिया बताएँ।

Write functional keys of computer.

